

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.04.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 23.04.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत-

* ➡ **थाना बरियापुर*** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.सूरज पुत्र हरेन्द्र कुशवाहा सा0 गौरकोठी भगड़ा टोला थाना बरियारपुर देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 90 शीशी बन्टी बबली प्रत्येक 200 एमएल कुल 18 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त 01 अभियुक्त 01.अर्जुन गिरी पुत्र गोरख गिरी सा0 गौरकोठी भगड़ा टोला थाना बरियारपुर देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 90 शीशी बन्टी बबली प्रत्येक 200 एमएल कुल 18 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

* ➡ **थाना बघौचघाट*** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.संजय कुशवाहा पुत्र स्वामीनाथ सा0 महुअवा बुजुर्ग थाना बघौचघाट, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 40 शीशी बन्टी बबली प्रत्येक 200 एमएल कुल 8 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया । इसके अतिरिक्त 01 अभियुक्त 01.अभिषेक यादव पुत्र दिनेश सा0 पिपरा कनक थाना तरकुलवा, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 शीशी बन्टी बबली प्रत्येक 200 एमएल कुल 4 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02-निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 23.04.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 16 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

03-जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 23.04.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 106 वाहनों से 97,500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।